

संख्या : 310634/08(150)2015 / XXVII(1) / 2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,

सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 02 जुलाई, 2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक मांग के प्रस्तावों सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के प्रस्ताव पर शीघ्र विचार किया जाना सम्भावित है। इसके दृष्टिगत विभागवार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यह सूच्य है कि किसी अनुदान संख्या के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाली बचतें भी पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने हेतु उपलब्ध रहती हैं और बचतों की उपलब्धता होते हुए अनुपूरक बजट की व्यवस्था कराना ऑडिट की दृष्टि से आपत्तिजनक है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुनर्विनियोग की सम्भावना न होने पर ही व्यय एवं बचत की सूचना (बी.एम.-8) सहित प्रथम अनुपूरक मांग हेतु मात्र वेतन, आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति, केन्द्र सहायतित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, वचनबद्ध व्यय, मा. मुख्यमंत्री घोषणा एवं राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी योजना/कार्य हेतु ऐसी धनराशि, जिसे चालू वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में व्यय कर लिये जाने के प्रति विभाग वचनबद्धता व्यक्त कर सके, ऐसे प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा सचिव स्तर से IFMS Software पर स्पष्ट औचित्य के साथ अपलोड करते हुए दिनांक 18.07.2025 तक ऑनलाईन वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें (हार्डकॉपी/ऑफलाइन पत्रावली की आवश्यकता नहीं है)।

भवदीय,

Digitally signed by

Dilip Jawalkar

02/07/2025

10:39:58

सचिव

संख्या : 310634 / 08(150)2015 / XXVII(1) / 2025 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें को इस आशय से प्रेषित कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट हेतु IFMS software में आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

5. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
(दिलीप जावलकर)
सचिव